Date: 03<sup>rd</sup> September 2024

To,
The Corporate Relationship Department,
BSE Limited
1st Floor, PJ Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

Ref: BSE Scrip Code: 543991 Symbol: TECHKGREEN ISIN: INEOP4P01011

Subject: Newspaper publication regarding dispatch of Notice of the Annual General Meeting ("AGM"), Annual Report of the Company for Financial year 2023-24 and e-voting related matters.

Reference: Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/ Madam,

Please find attached copies of newspaper advertisements published by the Company in 'Financial Express' (English) and 'Loksatta' (Marathi), intimating dispatch of Notice of 02<sup>nd</sup> AGM, scheduled to be held on Friday, 27<sup>th</sup> September 2024, at 11.00 a.m. (IST) IST through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/ OAVM")

Kindly take the same on your records.

Thanking You, Yours Faithfully,

## FOR TECHKNOWGREEN SOLUTIONS LIMITED

Ajay Digitally signed by Ajay Ramakant Ramakant Ojha Date: 2024.09.03 11:23:04 +05'30'

AJAY RAMAKANT OJHA MANAGING DIRECTOR

DIN: 03549762

**Encl.: As above** 

### NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

raj Power Generation Company Limited invites expression of interest (EOI) is vendors for "Supply of Carbon Steel Pipe for ETP Studge Transfer Pipeline" vW Thermal Power Plant at Prayagraj Power Generation Company Limited. B

### NATIONAL STANDARD (INDIA) LIMITED

Regiot Clark 127, Fisch - 1, 100 Kartherson Clarks Committy Pour Presidence (Fisch Member 2000).

Deep Official Economic, 12 April 100 Mic Compound, N. H. John Magy, Marksteins Murnial Compound, N. H. John Magy, Marksteins Murnial Wednesder, 100 Microson, N. H. John Magy, Marksteins Murnial Wednesder, 100 Microson, N. H. John Magy, Marksteins Markste

The demand server of the minering value but Locket Excises, N. M. John Merg, Mehadaron Medical Composition will all the applicable provisions of the Composites Act, (2013 and 15th Mehadaron Mehadaron memorial and the Sciel Excision (Deligations and Excisions Recurrence) and the Sciel Excision (Deligations and Sciel Mehadaron Act, (2013 and Landaron and Mehadaron and Mehadaron

on the Rollice may see undersort that we will recome an order Rollice may see undersort that we will not be made analise to make that the physical copies of the extension of the rollice of the extension of the extension and extension of the Rollice will be the physical from a fine of the Rollice will be rollice to the physical from a fine extension of the calculation of the calculation broadly interest and or or in the calculation broadly interest as or or in the calculation broadly interest to be business as or or in the calculation broadly interest from the physical physical broadly interest from the values of AROV (many a coldinary or in the Based AROV

- mains only.

  The sendie sorting shall commence on Nenday, September 23, 2004 at (ST) 9:00 am. The sendie sorting shall and on Wadnesday, September 25, 2024 at (ST) 5:00 pm. The coold date for determining the eligibility to sobe by electronic reverse or at the AGM. Thartaddy, Supplemen 19, 2024.
- passenting the below D and passenting the below D and the Model of ASIAL Members any part for a light entired everify manifest that the detailed by the MODIC of the the passent below the MODIC of the MODIC of the Conference of the Conference of the MODIC of the Conference of the MODIC of
- The Notice of AGM is available at the website of the Company <a href="http://www.nsi.net.in/">http://www.nsi.net.in/</a> and dis on the website of NSDL at www.excling.ndl.com
- In case of any queries, members may write an e-mail to <u>croling@ned.cs.in</u> or designated ema threast is, resi@cottacross.com for any orie-sance connected with the facility for voting by electronic

no company has appointed Mr. Shravan Gupta, (CoP No. 9980). Practicing Company Sec scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and tensparent manner.

he Register of Members and Share Transfer Register in respect of equity shares of the Compani Il sonain obsed from Thursday, September 19, 2024 to Thursday, September 25, 2024 (both yo inclusive).

embers may note that as per the provisions of the SEBI Circuis PCIR/2023337 dated Mach 18, 2023 (being part of the SEBI 8 20-14PCIR/202437 dated May 7, 2024), it is mandatory for all more for furnish Pack, Onesior of Normatoris, Contact details (P amber), Bank Ak details and Specimen Scandate for their or 190/CR/2002/C data first 1, 200 Deep on the SEER District No. SEER DISTRICT NATIONAL PROPERTY NO. 190/CR/2002/C data first 1, 200 Deep on the SEER Blade Clinical No. SEER DISTRICT NATIONAL PROPERTY NO. 190/CR/2002/C data first 7, 200/C, 1 is marked by 600 April 1, 200/C data first 1, 2

For National Standard (India) Limited Sci

Date: September 02, 2024 Place: Mumbai

ROSELABS FINANCE LIMITED

PROJECT LABS FINANCE LIMITED
Region Cit. 4.2 Front 4.100 virtual crusters. Cursing shell Region
Region Cit. 4.2 Front 4.100 virtual crusters. Cursing shell Region
Region Cit. 4.2 Front 4.100 virtual crusts.
Region Cit. 4.2 Front 2.2 Fro

Montary, September 02, 2024. Notice of the 30° AGM and Annual Flagori for the financial year analosis on March 31, 2024 is also liable on the Company's vestode <u>man crisistant recordinates.</u> The Block Estimates vestore is a liable of high production of high production of the Company as liable and on the liable of high productions deposition by liable of 1800° or every gas grayery at high execution production. The occurrence personally take these of soverestees to be exacted to the first allow asking to the company of the company of the company of the dark allow asking to the respect to by decided many. Members with one inferenced to legacy the dark allow asking to the respect to by decided many. Members with one inferenced to legacy the dark allow asking the company of the company of the dark allowed the company of the company of the dark allowed the company of the company of the dark allowed the company of the company of the dark allowed the company of the dark allowed the company of the dark allowed the d AGM and to available for inspection by declarative manse. Members who are interested to regular documents determine to in the Notice many sound annual to regularisation contributions occur. Me are requested to note that the physical copies of the storeard documental will not be made and to them by the Company: Instruction for Bernote e-veiling and e-veiling at the AGU:

- consent our remette system, and system; at the AGIE.

  Althorists patiest, patiest other physical from or in demonstrated team, as an the cur of calculation. As Medicinestry, September 18, 1006 may cost the vivolencheology for the business as set out in the Nation buring describers beginning system of Materials Securities Describer (MSDLI), born a place other than the Venue of AGM ("penche solding"). All the mambers are informed that:
- The business as set out in the Notice of AGM shall be transacted through voting to electronic means only.

- The Sealest as set out in the Redice of ADDA shall be represented through veiling by sectional climates with a section of the Redice of ADDA shall be represented through the The service or veiling shall and on Touristay, September 24, 2004 at (\$57) 500 per. The service or veiling shall and on Touristay, September 24, 2004 at (\$57) 500 per. The sacked data be intermenting the singlety or but by declarative research or the ADDA Proton is an applies altered at the Congray and becomes for a revention of the Congray and become properties and the Congray and becomes for a revention of the Congray and become an applies altered at the Congray and becomes for a revention of the Congray where the disclaration floor of ADDA and on places are on used and see institute in processed operating the significant places are supported by the ADD, after the alternated data and time for using and cross the using on the seculation is cased by similar text to exceed to cast their loss again, of the facility for revention shall be disclarated and a places and the second of the seculation of the seculation of an authority of the congress of ADDA and the second of the congress of the congress of ADDA and the second of a second section of the second of the second of an authority the congress of ADDA and the ADDA and the alternative control of ADDA and an analysis of the second of an authority the congress of ADDA and an analysis of an authority the congress of ADDA and an analysis of an authority the congress of ADDA and an analysis of an authority the action of a second of ADDA an analysis of the version to a second of ADDA an analysis of the version to a second of ADDA analysis of the version to a second of ADDA analysis of the version to a second of ADDA analysis of the version to a second of ADDA analysis of the version to a second of ADDA analysis of the version to a second of ADDA analysis of an analysis of an analysis of analysis of analysis of analysis of an analysis of an analysis of an analys

- ompany has appointed Mr. Shravan A. Gupta, (CoP No. 9990), Practicing Company any as the continizer to scratinize the e-voling process in a fair and transcernet manner. The Register of Members and Share Transfer Register in a fair and transparent manner. The Register of Members and Share Transfer Register in respect of equity shares of the Company will remain closed from Monday, September 15, 2024 to Wednesday, September 25, 2024 (cord days instainte).

For Roselabs Finance Limited

Place: Mumbal Date: September 02, 2024 Company Socretary & Com Membership

### MIRC ELECTRONICS LIMITED

Regd. Office: Orida House, G-1, MIDC, Andheri (E), Mumbai -40

Figure 1. The control of the comment of the control of the control

committees Adult Investigat VoC (Author design on the extracting in the resultance) and vocabilities of the VSR for the VSR for the Company. The procedure serving byte is and deleteling the EVSR for the Company. The procedure is promptly as and releteling the EVSR for the Company. The procedure is promptly as and releteling the EVSR for the VSR for the

### TECHKNOWGREEN SOLUTIONS LIMITED

CIN: L90000PN2023PLC217501

Regd. Office: Flat 202, Hem Opal Apartment,

Plot No. 26, Ekta Society, Wakadewadi, Shivajiriagar,

Pune, 411005. Ph. No. 491 9607002553

Email: cs@lechknowgreen.com Websiter: www.techknowgreen.com

# NOTICE OF 02\*\*ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that its Second (2") Annual General Meeting ("AGM") of the members of Techhinowypers Solitions Limited ("Company") will be held on Fiftay. September 27, 2024, at 1.98 A.M. (ST) instagin Vision Conferencing (Deer Auch Visias) Means ("V. (OAM") Techt, to transact the biomesses as self-trim in the Norse of the 0" AGM dated August 23, 2024.

The AGM will be held trough N° ("DAM") a compliance with the applicable previsions of the Companies AdV. (31's read with Crotale No. 14' 2020' deadle APM 2020' Colored to N° (12' 2020' deadle "Pil") 5, 2020' Colored No. 14' 2020' deadle APM 2020' Colored to N° (12' 2020' deadle "Pil") 5, 2020' Colored No. 14' 2020' deadle APM 2020' Colored to N° (12' 2020' deadle "ATM") 5, 2020' Colored No. 14' 2020' deadle October 7, 2022' assaed by Securities and Exchange Board of India ("SEPI), and other applicable circulaire season in this Registry (colored by referred as "Circulaire"), electronic opies of the Notice of the OCM AdM and Arman Report for the Faminaria Verz 2022' 54' be been sent on September 2, 2024 to all the members whose emal-address are registered with the Company / Depoticly Pericipared.

September 2, 2024 to all the members whose email address are registered with the Company (Depository Participants) or member and the Company (Depository Participants) or pericipants) or our Depository Participants (IV) and Participants) or our Depository Participants (IV) and register year email address as per the process advessed by your EP. As on disk, in the Company does not these very physical intervieting. Members may relie that the Notice of 2" AGM and the Annual Report for the Participant (IV) and IV and the Annual Report for the Participant (IV) and IV an

AGM has been provided in the notice of AGM. The remote e-voting period commences on Monday, September 23, 2024 at 9:00.4 M. (IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change

It subsequently.

The voting right of the Members shall be in proportion to the pask-sp value of their shares in the equity capital of the Company as of the out-off size i.e. Friday, aggreember 20 2024, Appears who is not the Ambere as of the cut-off size i.e. Friday segments by a contract of the size in the size in the size is the cut-off size is and becomes a member of the Company and the consideration of the contract of the cut-off size i.e. Friday, August 39, 2024 may reflect and backed or 26" ACMI or clearing the vote. The Amber of the Company is the cut-off size i.e. Friday, August 39, 2024 may reflect the contract of the cut-off size i.e. Friday, August 39, 2024 may reflect however, and the contract of the cut-off size i.e. Friday, August 39, 2024 may reflect however, and the contract of the cut-off size in the cut-off size in

again.
Contact details: In case of any queries relating to e-voting, the members may refer to the FAQs for members and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.madi.com or call on toil free no.: 1800-222-980 or senid a request at evoting.gonatio.o.in

For Techknowgreen Solutions Limited
Omkar Khirwadka
Company Secretary and Compliance Office ACS: 73762

### ♠ Indian Overseas Bank

Information Technology Department Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600003

GOVERNMENT E-MARKET PORTAL-IMPLEMENTATION OF COMPREHENSIVE E-SURVEILLANCE SOLUTION IN BANK'S CAPEX ATM SITES ON RENTAL BASIS BID NO: GEM/2024/B/5342441 DATED 29.08.2024

(Bit) Not derived by a second is also available and can be downloaded from the following websites www.lob.in & www.gem.gov.in

For Tender details and future amendments, if any, keep reterring to the following website www.gem.gov.in

# LOSS OF SHARE CERTIFICATE

is hereby given that the Certificate(s) for the under menitorie Shares of the Company have been loat / misplaced and the (s) / purchaset(s) of the said Equity Shares have applied to the anyto issue duplicate Share Certificate(s). International Certificate(s), and the Company of the Selection of the said Shares should lodge me with the Company of its Registered Office within 21 days from it also the Company of product of basic outplication critificate(s)?

Folio No.	Name of Shareholder	Certificate Nos.	No of Shares	Distinctive Nos. From To	
K00722	KANTA BAGADIA	10410	50	520151 520200	
K00722	KANTA BAGADIA	10429	50	521101 521150	
K00722	KANTA BAGADIA	11352	50	567251 567300	
K00722	KANTA BAGADIA	12089	50	604101 604150	
K00722	KANTA BAGADIA	12111	50	605201 605250	
K00722	KANTA BAGADIA	12238	50	611551 611600	
K00722	KANTA BAGADIA	12388	-50	619051 619100	
K00722	KANTA BAGADIA	12394	50	619351 619400	
K00722	KANTA BAGADIA	12507	50	625001 625060	
K00722	KANTA BAGADIA	12839	50	641601 641650	
K00722	KANTA BAGADIA	12877	50	643501 643550	
K00722	KANTA BAGADIA	12878	50	643551 643600	
K00722	KANTA BAGADIA	13391	50	669201 669250	
K00722	KANTA BAGADIA	14128	50	706051 706100	
K00722	KANTA BAGADIA	14251	50	712201 712250	
K00722	KANTA BAGADIA	14252	50	712251 712300	
K00722	KANTA BAGADIA	14671	50	733201 733250	
(00722	KANTA BAGADIA	14821	50	740701 740750	
(00722	KANTA BAGADIA	14846	50	741951 742000	
(00722	KANTA BAGADIA	15315	50	765401 765450	
(00722	KANTA BAGADIA	15494	50	774351 774400	
(00722	KANTA BAGADIA	15495	50	774401 774450	
K00722	KANTA BAGADIA	15499	50	774601 774650	
K00722	KANTA BAGADIA	15680	50	783651 783700	
K00722	KANTA BAGADIA	16205	50	809901 809950	
K00722	KANTA BAGADIA	16206	50	809951 810000	
K00722	KANTA BAGADIA	16226	50	810951 811000	
K00722	KANTA BAGADIA	16227	50	811001 811050	
K00722	KANTA BAGADIA	16421	50	820701 820750	
K00722	KANTA BAGADIA	16661	50	832701 832750	
K00722	KANTA BAGADIA	16784	50	838851 838900	
K00722	KANTA BAGADIA	16854	50	842351 842400	
K00722	KANTA BAGADIA	16876	50	843451 843500	
(00722	KANTA BAGADIA	17446	50	871951 872000	
K00722	KANTA BAGADIA	17688	50	879051 879100	
(00722	KANTA BAGADIA	17695	50	884401 884450	
K00722	KANTA BAGADIA	7284	50	363851 363900	
K00722	KANTA BAGADIA	8312	50	415251 415300	
K00722	KANTA BAGADIA	8568	50	428051 428100	
K00722	KANTA BAGADIA	8569	50	428101 428150	
K00722	KANTA BAGADIA	9011	50	450201 450250	
K00722	KANTA BAGADIA	9118	:50	455551 455600	
K00722	KANTA BAGADIA	9119	50	455601 455650	
K00722	KANTA BAGADIA	9510	50	475151 475200	
K00722	KANTA BAGADIA	9830	50	491151 491200	
K00722	KANTA BAGADIA	9831	50	491201 491250	

K00722 KANTA BAGADIA 9831 50 491201 491201 K00722 KANTA BAGADIA 9832 50 491251 491300 Name of Shareholder(s) – KANTA BAGADIA

### Notice for loss of shares

Notice is hereby given that I Yogesh Himatial Thakkar have lost following: share certificate of Himadri Speciality Chemical (Formerly known as Himadri Chemicals & Industries Limited): annion to the Company for losse of displayed share certificates:

Folio No.	Certificate No. Distinctive No.		tive No.	No of Shares	
T002574	0010508	002933901	002934000	100	
	0027252	004608301	004608400	100	

nee puorie si nereosy warned against purchasing or dealing with the above share certificates in any way and any person (s) who has any claim in respect of these shares, must lodge such claim with the Company at its Registered Office at 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Sulte No. 15, Kolkata 700 001, within 21 share from the shares.

Place: Ahmedabad Dated: 03/09/2024

# Midland Microfin Limited

OF 36TH (THIRTY SIXTH) ANNUAL GENI AND INFORMATION ON E-VOTING

the AGM.

to Company has appointed Ms. Sagrika Jayee (M.No.: A-61678). Practicing Company has appointed Ms. Sagrika Jayee (M.No.: A-61678). Practicing Company has appointed Ms. Sagrika Jayee (M.No.: A-61678). Practicing Company has been preceded in the Company of the Company

seelsy, as the Scribinate for conducting the 4-veing process in accordance with the first and transparent manner. Consequent of the seed of the seed of the seed of the conglisions with the MACA conduction and SEB LHOCFED CFT and CREWICKER'S TO AND SEED OF THE SEED OF

where the company by which the company by writing this notice, sharehy ary register their email IDs with the Company by writing to fir. Kapil Kumar Richard Secretary and Chief Compliance Officer of the Company, at his em

the examiness as solvening in the record or in mind integration executions comply system.

I. A person, whose cares is recorded in the register of members or in the register.

I. A person, whose cares is recorded in the register of members or in the register of the register.

I. A person, whose cares is seconded in the register of members or in the register.

I. A person is recorded in the register of the register of the register of the register.

I. A person is recorded in the register of the register of

issabled by CDSI, for visting threadther. Once the voice on a resolution is cast by the Markhes that not be clinicved to change it subsequently or not it through configuration that voice organization. Any person who acquires shartes of the Company and becomes the member of the company after senting of this Notice and holding shartes as on the cut-off date, may be loging it of and password by sending a nequest at halpdate, wording @cdinicve etc. The shart sent of the cut-off date is not be cut-off and provided the company after sentence of the cut-off date. The company after sentence of the cut-off date is not be cut-off date. The company after sentence of the cut-off date is not be company after sentence of the cut-off date. The cut-off date is not company after date is not company after date in the cut-off date is not company after date in the cut-off date.

Date : September 2, 2024 Place : Jalandhar

# Network 18

# **NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED**

(CIN: L65910MH1996PLC280969)

Registered Office: First Floor, Empire Domplex. 414 - Serapadi Bapat Marg, Lower Parel, Mumbal - 400013.

Tel: +91 22 4001 9000 / 6666 7777, Email: investors.n18@rw18.com; Website: www.nw18.com

### NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY

Members of the Company are hereby informed that a Postal Sallot Notice, seeking their approval to the resolutions set out in the said Notice has been sent electronically, pursuant to the circulars issued by the Ministry of Companel Affairs, to the members whose permit address is registered with the Company, KFini Technologies Limited ("KFInTech"). Company's Registra and Transfer Agni, I (Apposit on Yestinganitis) / Depositories, as on Friddy, August 30, 2024, ("Cat-Off Butie"). The Company has completed electronic despatch of the Postal Ballot Notice on Monday, September 2, 2024.

The Postal Ballot Notice is available on the Com-The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.nwt18.com and on the website of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindic.com and www.nseindic.com, respectively and on the website of KFin fech at https://evoling.kfintech.com. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may downtoad it from the above mentioned website.

The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and members seeking to inspect such documents can send an e-mail to investors.n18@nw18.com mentioning his/her/its folio number / DPID and ClientID.

The Company is providing to its Members, the facility to exercise their night to vide on resolutions proposed in the said Postal Balton Notice only by electronic means ("e-voting"). The communication of the assent or dissent of the Members would take place investigation ele-e-voting process only. The Company has engaged the services of Khrillents and seagney to provide e-voting facility. Members can cast their votes during the period mentioned herein below:

Commencement of e-voting	9:00 a.m. (IST) on Tuesday, September 3, 2024
End of e-voting	5:00 p.m. (IST) on Wednesday, October 2, 2024

Billed III Consupersion.

Althories of a voiting by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and members who have not registered their e-mail address has been provided in the Postal Ballot Voltice. The manner in which members, who have forgother the Berrill and Password, can obtain / generate the same, has also been provided in the said Notice.

Only a person, whose name is recorded in the register of members / register of beneficial owners as on the Cut-Off Date maintained by

the Depositories shall be entitled to participate in the e-voting A person who is not a member as on the Cut-Off Date, should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

### Manner of registering / updating e-mail address:

- a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their e-mail address with the Company, are requised to register / update their e-mail address by submitting form ISR-1 (available on the website of the Company at www.nw18.com) obly filled and signed along with requiste supporting documents to KFrinčech at Selenium Tower & Piot No. 313-2, Garbbewi, Firancial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032.
- b) Members holding shares in demylerialised mode, who have not registered / updated their e-mail address with their Depository Participant(s), are requested to register / update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demot accounts.

The resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of a voting i.e. Wednesday, October 2, 2024. The results of evoting will be announced on or before friday, October 4, 2024 and will be displayed on the Company's website at www.waff 8.com and the website of KFn fech at https://www.fech.com. The results will simultaneously be communicated to the Book Exchanges and will also be displayed at the registered office of the Company.

In case of any query on e-voting. Members may refer to the "Help" and "FAGS" sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Dewinloads" section of KFinTech's website for e-voting at https://evoting.kfintech.com.

Contact details for addressing e-voting related queries/grievances, if any Mr. V. Balakrishnan, Vice President

Kim Technologies Limited, Kim Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032

Tell-free No.: 1800 309 4001 (from 9:00 a.m. (IST) to 6:00 p.m. (IST) on all working days)

By Order of the Board of Directors

Date: September 3, 2024





फॉर्स क्र. - मुआरखी २ जायवाय XXI च्या भाग १ अंतर्गत नॉल्टीबहर सुमना देवारी जाहिएत कंपनी कावदा २०१३ च्या करना ३७४ (ती) आणि कंपनांच्या नियम ४ (१) च्या करना ३७४ (ति) नुसार (परियोग नियमक्तायाती आणिक) नियम, २०१४ कंपने कराद, २०१३ च्या करना १६६ च्या चे-क्या (२) च्या अनुस्तंत्र कंपनी नियम, केवेंद्र नीत केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी केवेंद्र कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी केवेंद्र कंपनी कंप

ग वचना नाबानक वारच आना वका. त कंपनीच्या हुत्तरः मेनोर्सेन्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ असोसिएकनवी प्रत सीटीएस ४७४५ स्टेशन रोड, उमेद १ क.९, चिनते यी एफ, पूर्व-४९१०९८, महाराष्ट्र, मारत वेबीस कार्यात्मवा वेबेस.

ब्याना कर, त्रात्व भारत, पुत्र-1704, प्रापृत्त, प्राप्त क्या स्वावां स्ववंद्यवां प्राप्तका देशे. व्याने नेदोन सेवात क्यां करी से, या कर्तक करें प्राप्त के करते हैं व्याने केदित क्यांट्र हा स्वावां स्वावां रिकारंग क्या (२ दिवार) पीतानुत क्षेत्र के कंपनीन, मूंत्रकाल क्यांत्रका रहें प्राप्त इनियाद, क्षेत्र स्वीतेट को स्वावार्वां के मन्त्रान, जांदे रंब १, क. ८, सेक्स', अक्यांत्री मनेता, निवाद प्राप्त रहितायां, निवादें - १९४० व्याने वर्षते सेवी इन्तरात्व क्यांत्र करते व जांत्री एक क्षां 'व्यानां विकारित क्षां 'व्याने रिकार्ट्या' क्यांत्र

यांत्र तेत्री स्वत्यात उकबू कृतवे व त्वाची एक प्रत "वश्च कर्यराची नावे नरेत्र डाकूरदास वधवानी (DPIN: 01961458) नियुक्त भागीदार पत्ता : सुप्रीम पालासीओ चेस्टर नं. ४०२, धनकुळी वस्ती, पंन कार्ड वलब जबळ, बाणेर, पुणे–४११०४५

नीरज नरेस वधवानी (DPIN: 10028582) नियुक्त भागीदार पत्ता: सुप्रीम पालासीओ चेस्टर नं. ४०२, धनकुओ करती, पँन कार्ड क्लब जबळ, बाणेर, पुणे–४९९०४५

दिनांक : ३ सप्टेंबर २०२४ ठिकाण : पुणे

### PUBLIC NOTICE

ablic at large are hereby inform ad Miss Vasanti Irappa Gudma

of the property mentioned herein under, along with membership rights in the property mentioned herein under, along with membership rights in Bhundappa Hirekurbar (Jamkhandi) and others.

Bhundappa Hirekurbar (Jamkhandi) and others.

As it is important and pertinent to note that the said Mr. Sabetsgaue 
Bhundappa Hirekurbar (Jamkhandi) has informed my elient that 
following original document which were in the custody of him has been loss 
by the said owner because of he has both his begat Bibwaewadi Road, Punc 
dated 15th August 2024 and he had also laumched property Missing 
Complaint on 25th August 2024 in 18thwewaff police station registered a 
Lost Report No. 116606/2024, "And 
Ary person having any elitin mely and the said property My 
Ary person having any elitin mely the said property My 
and 
any latest the said property of 
the said property of 
the said property by and 
the said property 
and property 
the said property by and 
the said property by and 
the said property by and 
the said property 
the said property by and 
the said owner to be 
the said property by and 
the said pro

ocuments: Original Agreement and Power of Attorney between Mr. Sahebga bhundappa Hirekurbar(Jamkhandi) and Mr. Babu Mohamad Husne Bhol

### Schedule of the Flat above referred to

The Flat / Kholi bearing No. 4 on ground Floor of Chawl No. C-3 defineasing area about 400 sq. ft. in the society known as Shivshankar Cooperative Housing Society Life constructed on Indo Bearing SNo.67 dissinated at Village Bluwewald, Tahuka Hawell District Pune and within thimits of Pune Municipal Corporation & within the jurisdiction of Sub Registrar Hawell, Fune.

Vishal Vinayak Mokate, Advocate

C. Vishal Vinayak Mokate, Advocate
Office Add: Flat No.7, Mathura Apartment, Opp. Yatri Hotel
Behind Ajit Electricals, Karve Road, Erandwane Punc-41 (0
Mob No.:9325901999 / 9371304545



Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

LOAN ACAINST (FOLIO = AUCHTOIN NO IDE ON TAST IS WHITE AT ISSEED AS IS The below mentioned borrower's have been issued notices to pay that outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited (Fasel). Since the borrower's has/three failed for pay highlight dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold Items/articles on 98 Sep 2024 between 11:00 AM = 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

# Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Wo https://gold.samil.in)

AMALNER - 23660002116717 | AMRAVATI - 23660002102593 23660002112584 23660002161831 23660002386567 24660000253191 BHUSAWAL - 23660002078867 23660002123383 2366000212407 23660002134713 23660002167170 | CHALISGAON - 2366000208648 23660002108153 23660002167180 2466000070754 24660000137850 KHAMGAON - 23660002187502 23660002398694 | PUNE - 236600021614/ 23660002184857 | SATANA - 23660002161731 24660000250216 | SHIRPL - 23660002125430 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form which is made available before the commencement of auction.

(T) | IDB | BANK | Rèn Requê, 1 to trans, mêter, uger dw. | CRL 85190M12004001148855 | Gr. vit. dx. floati war, gê - x11004.

कर्जदाराचे/मासमतेच्या मालकाचे नांव व कर्ज खाते क्रमांक	मानजी सूचना दिनांक	ताबा चेतत्त्याची दिनांक	मालमतेषा तपतील	मागणी सूचनेत दावा करण्यात आलेली स्वकम
श्री सुरेश बळीचम शिरोळे (कर्जदार) आणि श्रीमधी वैशाली सुरेश शिरोळे (सहकर्जदार) कर्जकाते क्रमांक- ०१०२६४५१०००२३३६६ आणि	२१ मे, २०२४	३९ ऑगस्ट २०२४ (प्रकारणक ताबा)	क्खेंट में, १०२, पहिला मजला, ब्लूबेरी होस्त, मेट नंबर ८६२, प्लॉट नंबर ५२ आणि १३, श्रम — वार्याली (आल्डाक्लामी), हरेती, पुरे- १४२२०७, महाराष्ट्र, ३३.७६ मी. भीटर कार्येट क्षेत्र आधिक ६.८० ५०० ची.मी. क्लार कार पार्षिक एरिया ८०० ची.मी. क्लार कार पार्षिक विशेष १०० ची.मी. नंबराष्ट्र प्रध्यातीत वार्याली (आव्हाळवाळी), तासुका हरेती, निरुद्य पुरो या गावाच्या हरीत मसर्वेले आहे.	(रुपये अञ्चार्यीस लाव सात हजार नऊसे अङ्गूसह आणि चार पैसे फक्त) तसेच



# पुणे महानगरपालिका मदतवाढ

पुणे महानगरपालिका खाली नमूद केलेल्या विभागांकडील कामांना मुदतवा यात येत आहे. सदर कामाबाबतच्या निविदा अटी. शर्ती ड. बाबतचा सद तपशील निविदा संचमध्ये नमूद केलेला आहे व निविदा संच ऑनलाईनर निःशुल्क पहाववास उपलब्ध आहे.

## विक्री कालावधी दिनांक-

०३/०९/२०२४ ते १०/०९/२०२४, दु. २.३० पर्यंत. स्वीकृती कालावधी दिनांक-०३/०९/२०२४ ते १०/०९/२०२४, दु. २.३० पर्यंत. निविदा उघडणे कालावधी दिनांक-

११/०९/२०२४, दु. ०३.०० वाजता जाहिरात क. २९-DC-X-२०२X

अ.क्र.	खात्याचे नाव	मुदतवाढ निविदा क्रमांक
٤)	हडपसर मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय	PMC/ZONE-4/WANAWADI/2024/185 PMC/ZONE-4/WANAWADI/2024/167 PMC/ZONE-4/WANAWADI/2024/187

१) चरिल टैंडर्सची विक्री च रचीकृती (www.mahatlenders.gov.in चा संकेतस्थळावरून फक्त ऑनलाईन चालू आहे. २) बाली सर्व नजकूर पूर्वी प्रसिद्ध केल्लाप्रमाणे काबच राहील. ३) काबिल्योन आर्थेत क. अतीम्मवर्ष (ति) /३२, दिनांक २२/०४/२०१६ नुसा बनाणा रक्षम ईसीएस/ आरटीनीएस/ एनईएकटी सुविधेमार्फतच स्वीकारण्यात

परिमंडळ क्र. ४, पुणे महानगरपालिका, पुणे

W VISTAAR विस्तार फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लि.

हीं गोर्-भेटरी विस्तार प्रशासना राज्य लगा स्वित्स प्रा. लि. नेवलिक क्षार्य कर प्रशासन प्रशासन कर कार्य कर प्रशासन कर कार्य कर उपास कर कार्य कर विस्तार प्रशासन कर कार्य कर विस्तार प्रशासन कर कार्य कर क च्या उप कलम (4) अंतर्ग रांनी दि. 30 ऑगस्ट 202

्रवर्गक आस्तेल्या ग्रेके अवस्था मालामचे वर्गना पुरील आस्ताने स्व राज्य अवस्था मालामचे वर्गना पुरील आस्तानेस स्व राज्य आणा मुक्त , जांचनीचे आस्ता, अध्योत्ता, सर्वे क्रमेता 1564 विद्या जीवनीचे आस्ता, अस्तीता, सर्वे क्रमेता 1564 विद्या जीवनीचे सम्बाद्धा विक् राज्योत, सर्वे क्रमेता 1564 विद्या जीवन स्वी आणा आस्तामात मुस्तूची यांच्या स्वातिक हरीता, औषा चीवनी जिल्ला भ जीवनी विद्या मालाम अस्तुची यांच्या स्वातिक हरीता, औषा चीवनी जिल्ला भी क्रमेत जांची,

# इन्वायर इलेक्ट्रोडाइन लिमिटेड

जाहीर सूचना-व्हिडिओ कॉन्फरनिसग (व्हीसी)/ इतर हक्श्राव्य पद्धतीनी (ओएव्हीएम) घेण्यात येणारी कंपनीची 42वी वार्षिक आमसभा

पी कंपनीची 4.2वी वार्षिक आमसभा
प्राह्म पुरू सामक रूपास्त्री धाणाण परिपक्त
20. 02/021, 21/2021, 2020, 13 गांचिका 20.
02/021, 21/2021, 2020, 13 गांचिका 20.
02/021, 21/2021, 2020, 13 गांचिका 2021, 18 मिल्रेस, 2021, 18 मिल्रेस, 2021, 18 मिल्रेस, 2021, 18 मिल्रेस, 2021, 2021, 18 मिल्रेस, 2021, 202

## (1970-1970-1976) है । 2 में, 2020, \$ अनेवारी, 2021, 1 3 में, 2022, 5 जानेवारी, 2023 आणि 7 अधिक्यार, 2023 (दोन वे पिट्टाने) हैं। स्वाव जाने आधार अंग्रेण आधार कार्या अधिकार है। अधिकार कार्या अधिकार है। अधिकार कार्या अधिकार है। अधिकार कार्या अधिकार है। अधिकार कार्या प्रतिकार है। अधिकार कार्या प्रतिकार है। अधिकार कार्या प्रतिकार है। इस प्रतिकार, 2024 जीता से 11.30 जा. (आपने) इन्द्रावदीट (लिंक स्टार्ट्स कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार

संपोधनः प्राप्ते जात्र च हरूप्राप्ते जात्र च हरूआसम्बन्धारं स्थिति अत्री स्थ्री अगस्य संभास्प्रीमान्योत्ती संगत्ति स्थान्यः
स्पर्ति संगति संगति स्थान्यः
स्पर्ति संगति स्थान्यः
स्पर्ति संगति स्थान्यः
स्पर्ति संगति संगति स्थान्यः
स्पर्ति संगति संग रकेन कलेली रक्तााकत ३५ इंगेल पाठवाया । अप इंगेल पाठवाया । अपूर्व रक्ताजाल सम्भाग धारण करण अंद्रेड नीविरणमासाठी संवीदित डिजिडिट । अप इंगेल इंगेल

स्थान : पुणे दिनांक : 02-09-2024

## सुप्रीम होल्डिंग्ज अँड हॉस्पिटॅलिटी (इंडिया) लि.

लिख: ऑफिस क. 510 वे 513, पाचवा मजला, प्लॉटीनम रसेकर, त्लोडा मार्ग, नमर शेड, पुणे-411014, टेली: +91-9322910665 www.supremeholdings.net, ई-मैल: info@belmac.in CIN: L45100PN1992PLC173438

सभासदांसाठी 42व्या वार्षिक आमसभेची सूचना

CHI. L6100PH 182PL C173438

सभासदांसाती 420मा वार्षिक आसमसभेची सूचना
पाठे पूर्ण करणक से एंग्रामण प्राप्तेय पाठ केले कामसभेची सूचना
पाठे पूर्ण करणक से एंग्रामण प्राप्तेय पाठ केले कामसभ करणमाठ पूर्ण होंगा संदिर्ग के स्वीव्यक्ति (100) सिर्वाट (वेक्स) एक समायां देशी स्वार्थ करण पाठ से प्राप्त केले कामस्य (प्राण्य) पुक्राम, 18.2 म प्राप्तेय, 2024 रेगी है, 3.00 कामा (पाठण) विविद्ध होंगा संदिर्ग क्रिक्ट (वेक्स) एक समायां पाठण पाठी पाठण केले एक समायां पाठण कर 17/2020, 18.3 प्रीप्त (2020, समाण वेषणक म 17/2020, 18.3 प्रीप्त (2021, समाण वेषणक म 17/2021, 18.1 प्रीप्त (2021, समाण म 17/2021, 18.1 प्रीप्त (2021, समाण म 17/2021, 18.1 प्रीप्त म 17/

	मंगळवार, दि. 24 सप्टेंबर, 2024 रोजी स. 9.00 वा.		
दूरस्थ ई-मतदान समाप्ती दिवस, दिनांक व बेळ :	गुरुवार, दि. 26 सप्टेंबर, 2024 रोजी सार्थ. 5.00 वा.		
00 1 11 1	10 11		

- 1	ादवस,	ादनाक व	वळ	: स	ाय. 5.00 वा.	
त्यानंता	सीडीएसए	न द्वारे बै-	मतदान मॉडर	ल खंडित करण	यात येईल.	
						चे सभासद होणाऱ्या
						ासाटी विनंती पाठवन
						d_lindia.com
						. आपली दसन्थ ई-
						ाठी आपला विद्यमान
						आस्त्रास, आपण
						Jer Detail.
						वा मिडीएसएल जो
					करू शकता कि	वा साझएसएल आ
			क्रमांकावर सं			11
						इदन् करणे यांवाबत
						1 व्ये हेल्प सेवशम
						रतद्भन मॅन्युअल पाट्
						हाब किंवा 022-
23058	738 आपि	022-23		व संपर्क साधा		
- 18			मधीप र	लिंदाज अंद हो	प्रियमेलिटी (इंडिय	) जिल्लियेन करिता



# E-Tender Submission

This Notification is in Continuation of E-tender Notice Publisher on Dated 09.08.24 in the newspaper Work Contract for AMCO Computers, Printers & Internet Network problems of al offices under Kothrud Division from the authorized

ntractors. E-Tender No-EE/KD/T-06/2024-25

E-Tender No-EE/RD/T-06/2024-25
 Date of tender sale: 90.8 2024
 Last dt. Of Tender Submission Extended to: 10.09.24 up to 20.0 hrs
 Tender Opening Date: 11.09.24 up to 13.00 Hrs
 Tender Document is Available on Website.
The E-Tender Document is Available on Website.
The Other Tema and Conditions will remain Unchanged.

For details visit website



कर्ज खाते क्र. 10090628 आणि 10093039

. सामान्य जनतेस आणि विशेषकरून श्री. सिद्धेश्वर पवार (कर्जदार) आणि श्री वा सिद्धेश्वर पवार (सह-कर्जदार आणि जामीनदार किंवा त्यांचे कायदेशीर वा 

स ऑटो फारनान्शियल सर्विद्रसेस लिमिटेड' म्हणून ओळखली जागारी) फास्ट्रम्बर सर्विद्रसेस लिमिटेडची उपकंपनी) I: प्लॉट क. 94, मरोळ को-ऑपरेटिक इंडस्ट्रीअल इस्टेट, अंधेरी-कर्ला री। (1905) No. 1907 No. 1907 St. 94, 1982 No. 94 No. 1907 No.

विस्ता 8(1) सिंद्यम्पिसि हेटरिट (पराजेगिसिट) हरना, 20021
जाओं, यात्री तरी करणा अंतियम लिर्जियन औड प्रधानमानीस्त्रम सर्वित्यस व्रोडेश लिर्जिटेड में आपिक लिर्जिटेड पे आपिक लिर्जिटेड परिकार कर कर कर किए प्रधानमानी कर कर कर किए प्रधानमानी कर कर कर किए प्रधानमानी कर किए प्रधान किए प्रधानमानी कर किए प्रधान के किए प्रधानमानी किए प्रधानमानी कर किए प्रधान किए प्रधानमानी कर किए प्रधान किए प्रधानमानी कर किए प्रधान कर किए प्रधानमानी कर किए प्रधान कर

्राप्तान पत्र अहा.

पालमानेचे वर्णा

हाल मालमानेचे वर्णा

हाल मालमानेचे

## टेकनौग्रीन सोल्युशन्स लिमिटेड

भवाधान साल्युशन्स स्वामटड शाबद्गन : एल.९०००वीएन२०३यीएलसी२१७४ श्रीकृत कार्यातवः एलॅट २०२, हेम ओपाल अ ट नं. २६, एकता सोसायटी, वाकडेवाडी, शिवा , ४११००५. दूरावनी: +९१ ९६०७००२४५३ मेल: cs@lechknowgreen.com संकेतस्थळ

## रण सभेची आणि दूरस्थ ई-मतदान संबंधीची सूचना

याद्रपे सुचना टेपाया केता आहे की टेक्नीबीन सोस्युक्तल तिमिटेड ("कंपनी") प्या सदस्योंची ०२ (दुसरी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") युक्रवार, सर्टेबर २७, ०२४४ पोजी सकाळी १९.०० चारका (भारतीय केता (विदेश) संग्रेग्यरिक्यों, आयोजित केती चार्डल, अमेरन, २३, २०४४ पाज २०२१ पाणिस्था सूर्यमंत्रिय हेका (प्रोत्यक्ति प्राय्वाति संभावति प्राय्वाति स्थावति प्राय्वाति स्थावति स्यावति स्थावति स्थावति स्थावति स्थावति स्थावति स्थावति स्थावति स्यावति स्थावति स्यावति स्थावति स्थावति स्थावति स्थावति स्थावति स्थावति स्थावति स्य

स्वानमा परिषक्त क्यांस ०.८ (फीट २०० कोची पीएमाक क्यांस १४/०२०, रिशंक १३ (फीट २०० कोची पिएमाक क्यांस १४/०२० काच्या स्वान्धित २०० कोची प्राचित्रक क्यांस १४/०३० काच्या स्वान्ध्य १८८० कोची स्वान्ध्य काच्या स्वान्ध्य काच्या स्वान्ध्य भाग्य १८८० कोची स्वान्ध्य १८८० कोची स्वान्ध्य


दांनी नोंद घ्यावी की ०२ (दुसरी) एजीएम ची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३–२४ चा

मारी.

मारावर्धानो नीत प्रााणी की 02 (दुसरी) एलीएस की सूचना आणि आर्थिक वर्ष 2023-22 था वार्षिक आर्थक प्रााण के प्रााण के प्राराण के प्राराण (अप्पाण के प्राराण (अप्पाण के प्राराण (अप्पाण के प्राराण के प्राण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्राण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्राण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्राराण के प्र

(FAQ) आणि सदस्यां

ठेकाण: पुणे देनांक: ०३/०९/२०२४



MEDIA (EACH (MEDIA (MEDIA) ALL MEDIA) (CASUL (C.2.7) (%))
केट (C.20) मंत्रीय (तथा ) (त्या ) स्वाच्या मामान पास्त्र प्राव्ध प्राव्ध कर केट (देशा ) है। यह मामान पास्त्र प्राव्ध मामान पास्त्र प्रावध (तथा ) है। यह मामान पास्त्र प्रावध कर केट (देशा मामान पास्त्र कर केट (देशा मामान पास्त्र कर केट (देशा मामान प्रावध कर केट (देशा मामान प्र

3.6 जो. सी. स्वाप्त 2037.50 में हु. 5 जा जोर से संवापती जानूवा करने तिस्ता पूर्ण कर लिए. जिया में प्राप्त पंत्राप्त करिया हों जा है। उत्तर पंत्राप्त कर जा किया है। जा हुए पंत्राप्त कर जा है। जा हुए पंत्राप्त कर जा है। जा हुए पंत्राप्त कर जा हुए प्राप्त कर जा हुए प्राप्त कर जा हुए जा हुए

## OSBI भारतीय स्टेट बँक, गृह कर्ज केंद्र, विमान नगर.

प्रचार प्राप्त कार्यकॉन, साकोरेनगर सोसायटी, विमाननगर, एअरपोर्ट रोड, पुणे-०१४. संपर्क क्र. ०२०-४८५०१०६०/६६. E-mail:racpc4.pune@sbl.co.in

### ताबा नोटीस

पादा जाटीन्स

प्रांत्रा भारतीय स्टेट र्कंग, पृष्ट कर्ज केंद्र विमान मार्ग, पूर्णेय आंपान जांधिकारी यांगी
विस्तृपिटयांदेशन और विकन्द्रशन और सामानाशियात अंतिरा और एम्फोर्सिट ऑफ विस्तृपिटयांदेशन और विकन्द्रशन और सामानाशियात अंतिरा और एमफोर्सिट ऑफ विस्तृपिटयांदेशेल्य अंतर अंतर अंतर अंतर कारतायां करना अंतर १५(२) मिला मे अनुसार प्रांत्रा कार्योंदेश कार्योंदेश पायत्रम विस्तृप्त अंतर कारतायांच्या करना १३(२) मुसार कार्योंद्र भी राजेंद्र मार्ग्य कार्योंद्र पायत्रम वि. १९०, २०२२ रोजें वेशे अंतराकी स्थाप्त भी, योजेंद्र कार्योंद्र विस्तृप्त के १९०, २०२२ रोजेंद्र वेशे वोशेंद्र कार्यांद्र कार्यांद्र मार्ग्य मेंद्र पायत्रम होगारे पूजीव व्याज आणि वरदूर्गिक वर्ष, ब्रावंद्रीय कार्योंद्र कार्यांद्र मार्ग्य मेंद्रीय कार्यांद्र विश्वयां आत्र प्राप्त कराय्यों कार्यां कार्यांद्र कार्यांत्र कार्यांद्र कार्यांत्र कार

्. न्य जनता आणि विशेषतः कर्जदार यांना जाहीर सावधानतेची सचना देण सर्व सामान्य जनता आणि विशेषात्र कर्यादा याना जाहरेत सावधानगंची सूपना देणाव देव शेष स्थानी खाती जर्दाकीकेत्या मारामार्वस्थात कोणताही व्यवस्थात्र करू ने, पण उसा कोणताही व्यवहार केता मेता तत तो भारतीय स्टेट केंग्र वृष्टेष्या हि. २६,०६,२०३३ रोजी केंग्र असलेली स्थान २०, ८६,१५५,८५१/- (रुपये सहारेपी ताख चौदा हजार आठशे केंग्राजीत फला) अधिक करपाताीत दर्मनुसार होणारे पूर्वीता व्याज आणि सद्भुपीका खर्च, झातेल होणारे हार चर्च, मुलक इ. नोजार उस्तेज स्विकक्तीसरीत केंग्र करिक करणतात्र कर्मनुष्टा होणारे पूर्वीत व्याज आणि स्वरूपीका स्वाचार स्वाचार क्रमार १३ उपकल्पन ८ कडे आकर्षित करण्यात येते.

ाउ उपकारम ८ काँ आकार्षिय कारण्यात येते.
अधक मालमधेषे वर्णन
क्षेत्र के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद

हिनांक : २९.०८.२०२४ सही / -स्थळ : पुणे अधिकृत अधिकारी, नजक्रत वंदिण्या अक्त्यात इंडजी नत्तु झड़ परावा भारतीय स्टेट बँक, गृह कर्ज केंद्र

# लोकनेते बाबुराव पाटील ॲग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

लोकनंते बाबुराय पाटील ॲंग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड संवर्षाकृत कार्यालय : स्वर्धनार, अस्तर : त्युवान्य कार्यालय : स्वर्धनार : स्वर्धनार : स्वर्धनार : स्वर्धनार : स्वर्धनार : स्वर्धनार : इस्तर : स्वर्धनार : इस्तर : स्वर्धनार : स्वर्धन

ा सामित्र के सामित्र के स्वर्ण के

स्य ई-मनदान पदतीचा कालावधी शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० तथापासून सुरु होईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संध्याकाळी ५.०० सत्त संधेल.

कारणायापुत्त कुए होहिल आणि परिवार, २६ सप्टेंबर, २०२४ तेजी संध्याकाओं ५,०० वाजा संधेय. जाजा संधाय प्रतिक त्याचित कार्यकाण दिवती कंपनीच्या समावाद्याच्या परिवार, २० सप्टेंबर, २०२४ मा बट-जीत सारावेच्या दिवती कंपनीच्या समावाद्याच्या परिवार, उपार के प्रतिक परिवार के प्रतिक ने प्रतिक किरान कर करेका. जाजा स्वार के प्रतिक माना प्रतिक किरान प्रतिक किरान कर करेका. जी स्वारी वार्षिक एवं एवं प्रतिक क्षेत्र आपता स्वारी कार्यकाण प्रतिक परिवार करेता आणि वार्यक विकार अर्थन आपता क्षेत्र आपता स्वारी कार्यकाण प्रतिक परिवार करेता आणि वार्यक विकार करेता आणि वार्यक विकार करेता आणि वार्यक विकार करेता कार्यकाण स्वारी कार्यकाण प्रतिक परिवार के प्रतिक करिया कार्यकाण स्वारी अर्थन प्रतिक परिवार के प्रतिक करिया कार्यकाण स्वरीक वार्यकाण कर्यकाण स्वारीक परिवार कर्यकाण करेता कार्यकाण स्वरीक कर्यकाण स्वरीक कर्यकाण स्वारीक परिवार करेता कराया आणि प्रतिक करिया करि